Get More Visit : http://hindicomics.blogspot.com

TITLES CHACHA CHAUDHARY AND SABU AND THEIR CHARACTERS ARE COPYRIGHT REGISTERED BY GOVERNMENT OF INDIA FOR THE PROPRIETORS PRAN'S FEATURES, A-84 NARAINA VIHAR, NEW DELHI-110028. REPRODUCTION OF ANY PART OF THIS BOOK IS STRICTLY PROHIBITED. NO ACTUAL PERSON IS NAMED OR DELINEATED IN THIS FICTION COMICS. ANY SIMILARITY TO REAL HUMAN BEING OR PLACE IS PURELY COINCIDENTAL.

पन्नों में ताश का खेल और पांच एजुकेशनल गेम्स+



डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के रंगीन पेपर स्टीकर प्रत्येक का

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टकर
डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में पैसे भेज कर डाक द्वारा मंगवाएं।

अगले माह पढ़िये—कार्टूनिस्ट प्राण का चाचा चौधरी और सम्राट

डायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब संगम—अग्निपुत्र और ओइन चिक पैंग। साथ में मैग्नेट स्टिकर मुफ्त।



डायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब

अपने टेलीविजन पर देखें- डायमण्ड कामिक्स के प्रिय पात्र-डायमण्ड कामिक्स वीडियो कैसेट में-



अपने टेलीविज़न पर देखें

आगामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें। साथ में महाबली शाका का मैग्नेट स्टीकर



चाचा चौधरी प्लेइंग कार्ड—रंग बिरंगे ताश के पत्तों में ताश का खेल और पांच एजुकेशनल गेम्स

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के रंगीन पेपर स्टीकर प्रत्येक का

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के ...

अगले माह पढ़िये—कार्टूनिस्ट प्राण का चाचा चौधरी और सम्राट अशोक का खजाना। साथ में चाचा ...

अपने टेलीविजन पर देखें– डायमण्ड कामिक्स के प्रिय पात्र–डायमण्ड कामिक्स वीडियो कैसेट
... जानकारी के लिए पत्र लिखें।

डायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब

© PRAN'S FEATURES

डायमण्ड कामिक्स द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम जीवन में भर

अपने टेलीविजन पर देखें

बैंक का सीक्युरिटी गार्ड

आगामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें। साथ में महाबली शाका का मैग्नेट स्टीकर

आगामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें। साथ में महाबली शाका का पैटर्न स्टीकर मुफ्त।
ताशा चौकड़ी प्लेइंग कार्ड—रंग बिरंगे ताश के पत्तों में ताश का खेल और पांच एजुकेशनल गेम्स।

डायमण्ड कामिक्स फन कलैक्शन में
डायमण्ड कामिक्स फन कलैक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टीकर

अगले माह पढ़िये—कार्टूनिस्ट प्राण का

डायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एकं बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब



डायमण्ड कामिक्स में ... चरित्रों के रोमांचक एवं मनोरंजन से भरपूर कारनामें, अपने घर

विवार 'विविध भारती' पर दोपहर

और अब हर माह सुनिये, अपने मनपसंद चरित्रों के रोमांचक एवं मनोरंजन से भरपूर कारनामें, अपने घर में

अपने टेलीविजन पर देखें–डायमण्ड कामिक्स के प्रिय पात्र–डायमण्ड कामिक्स वीडियो कैसेट में–



डायमण्ड कामिक्स फन कलैक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के रंगीन पेपर स्टीकर प्रत्येक का

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के आकर्षक मैग्नेटिक स्टीकर

डायमण्ड कॉमिक्स पेश करते हैं—कार्टूनिस्ट प्राण का बेहतरीन पात्र—श्रीमती जी, जो नियमित आपका मनोरंजन करेगा

डायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब

अपने टेलीविजन पर देखें– डायमण्ड कामिक्स के प्रिय पात्र–डायमण्ड कामिक्स वीडियो कैसेट

और अब हर माह सुनिये, अपने मनपसंद चरित्रों के रोमांचक एवं मनोरंजन से भरपूर कारनामें, अपने घर में अपने
... में दो सम्पूर्ण कामिक्स । मूल्य 25/– रुपये

विविध भारती पर हर रविवार दोपहर सवा दो बजे डायमण्ड कामिक्स द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम जीवन में भर वो रंग, डायमण्ड कामिक्स के संग

आगामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें। साथ में महाबली शाका का मैग्नेट स्टीकर



"डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के कम्बो मैग्नेटिक स्टीकर

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टी
डाक द्वारा मंगवाएं।

© PRAN'S FEATURES

यमण्ड कॉमिक्स पेश करते हैं—कार्टूनिस्ट प्राण का ...
... चाचा चौधरी और सम्राट अशोक का खजाना। साथ में चाचा

डायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक्स

अपने टेलीविजन पर देखें– डायमण्ड कामिक्स के प्रिय पात्र–डायमण्ड कामिक्स वीडियो कैसेट
... जानकारी के लिए पत्र लिखें।

र अब हर माह सुनिये, अपने मनपसंद चरित्रों के रोमांचक एवं मनोरंजन से भरपूर कारनामें, अपने घर में अपने
रिकार्डर पर—डायमण्ड कामिक्स आडियो कैसेट में—
डायमण्ड कामिक्स द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम—'

...ामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें।

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टी...
...पैसे भेज कर डाक द्वारा मंगवाएं।



चाचा चौधरी प्लेइंग कार्ड—रंग बिरंगे ताश के पत्तों में ...
... में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के रंगीन पेपर स्टीकर प्रत्येक क

डायमण्ड कामिक्स फन कलैक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टीकर
... प्राण का बेहतरीन पात्र—श्रीमती जी, जो नियमित आपका

अब हर माह सुनिये, अपने मनपसंद चरित्रों के रोमांचक एवं मनोरंजक
डायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब

अपने टेलीविजन पर देखें– डायमण्ड कामिक्स के प्रिय पात्र–डायमण्ड कामिक्स वीडियो कैसेट

र रविवार 'विविध भारती' पर दोपहर सवा दो बजे डायमण्ड कामिक्स द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम– 'जीवन में

आगामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें। साथ में महाबली शाका का मैगनैट स्टीकर मुफ्त।

यमण्ड कामिक्स फन कलैक्शन में डायमण्ड कामिक्स के ...

... फाई—रंग बिरंगे ताश के पत्तों में ताश का खेल और पांच एजुकेशनल गेम्स।

डायमण्ड कामिक्स फन कलैक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के रंगीन पेपर स्टीकर प्रत्येक का मूल्य 1/- रुपया। डाक द्वारा पैसे भेज कर मंगवाएं।

डायमण्ड कामिक्स फन कलैक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टीकर



डायमण्ड कॉमिक्स पेश करते हैं ...

... प्राण का चाचा चौधरी और सम्राट अशोक का खजाना। साथ में ...



ायमण्ड कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब

अपने टेलीविजन पर देखें-डायमण्ड कामिक्स के प्रिय पात्र-डायमण्ड कामिक्स वीडियो कैसेट में-

और अब हर माह सुनिये, अपने मनपसंद चरित्रों के रोमांचक एवं मनोरंजन से

विविध भारती पर हर रविवार दोपहर सवा दो बजे डायमण्ड कामिक्स द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जीवन में





ागामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें। साथ में महाबली शाका का गैलैन्ट स्टीकर
डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैगनेटिक स्टी

चाचा चौधरी प्लेइंग कार्ड—रंग बिरंगे ताश के पत्तों में ताश का खेल और पांच एजूकेशनल गेम्स।

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के रंगीन पेपर स्टीकर प्रत्येक

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टीकर

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के ... कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब

अपने टेलीविजन पर देखें,
...ब हर माह सुनिए, अपने मनपसंद चरित्रों के रोमांचक एवं मनोरंजन से भरपूर कारनामें, अपने घ...
...टेप रिकार्डर पर—डायमण्ड कामिक्स आडियो कैसेट में—दो सम्पूर्ण कामिक्स । मूल्य 25/– ...

आगामी माह महाबली शाका और खूनी बगावत पढ़ना न भूलें। साथ में महाबली शाका का मैगनेट स्टीक

अनोखी दौड़
अरे भई जम्पी! मैंने चाचा चौधरी की पगड़ी हथियाने की एक तरकीब सोची है.
वो कैसे, बम्पी?
मैं चाचा चौधरी को दौड़ के लिये चैलेंज करता हूं, और उसे हरा कर उसकी पगड़ी जीत लेते हैं.
वाह, बम्पी!
जम्पी, तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो.
चौधरी, तुम अपने को बड़ा तीसमारखां समझते हो! मैं तुम्हें दौड़ के लिये चैलेंज करता हूं.
?
दौड़ कुतुब मीनार तक होगी. पहले तुम पहुंचे तो मैं तुम्हें अपनी टोपी दे दूंगा वरना तुम्हारी पगड़ी मैं ले लूंगा.
C-383

एक... दो... और तीन!
चाचाजी, बम्पी आगे निकल गया
तुमने कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी नहीं सुनी? जो शुरू में सारा दम लगा देता है, आगे चलकर वो हताश हो जाता है.
ओह जम्पी! मैं तो आधे रास्ते में ही थक गया.
जल्दी से कार में बैठ जाओ. मैं तुम्हें कुतुब पहुंचा देता हूं. यहां कोई नहीं देख रहा.
वाह!

वह रहा कुतुब !
चौधरी तो अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा.
हैं ??? वह तो पहले से ही यहां मौजूद है !
भाई छज्जू ! यहां वम्पी तो नहीं आया ?
आया था. मुझे यह टोपी देकर चला गया.
जुड़वां भाई होने से कभी-कभी फायदा भी हो जाता है.
© PRAN'S FEATURES 1981

ताश का कमाल
चाचा चौधरी जादुई चिराग लिये बाजार में घूम रहा था.
तभी रोने की आवाज आयी - - -
आSS
होटल
क्या हुआ ?
कुछ ठगों ने मेरी सारी तनख्वाह जुए में जीत ली.
तुम जा कर फिर खेलो. देखूं, वे चालाकी कैसे करते हैं ?
मगर पैसे ?
ये लो !

डायमण्ड कॉमिक्स पेश करते हैं—कार्टूनिस्ट प्राण का बेहतरीन पात्र—श्रीमती जी, जो नियमित आपका मनोरंजन करेगा

सोफ़्टी
लो, सोफ़्टी खाओ!
वाह!
मजा आ गया
चाचाजी, मेरी सोफ़्टी?
ओह! वह तो मैं भूल ही गया.
ठहरो, मैं अभी लाता हूं.

सोफ़्टी पार्लर
अरे भई, साबू के लिये एक स्पेशल सोफ़्टी देना.
यह लो.
राकेट! दौड़ो! इससे पहिले कि यह पिगल जाये, हमें साबू के पास पहुंचना है.
थोड़ी दूर पर---
यह महिला सोने की चेन पहनकर जा रही है. अगर मैं यह छिना लूं, तो काफी पैसों में बिक जायेगी.
ओह!
पकड़ो! वह मेरी सोने की चेन लेकर भाग रहा है.
PRAN'S FEATURES

रविवार 'विविध भारती' पर दोपहर सवा दो बजे डायमण्ड कामिक्स द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम—'चौकन

किसी बच्चे के हाथ यह पाउडर न लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूं.
अरे, पता है? बगड़गदास की शादी में जाना है!
अरे भागवान! चलते हैं. तुम नाराज क्यों होती हो?
चलो!
मैंने अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा. लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं.
चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वह अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता.
यह तो बड़ी अच्छी बात है. आओ, आज उसके घर की थोड़ी सफाई कर दें.
वाह! अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है!
एक पाउडर की डिब्बी भी है.
इसे भी उठा लो.

बैग भर गया है. उनके वापस लौटने से पहले खिसक चलो.
सब से पहले यह खुशबूदार पाउडर लगा कर जरा चेहरे की रौनक बढ़ायें.
उधर वापस लौटने पर--
ओह! अलमारी खुली पड़ी है. सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए!
अरे! घर में चोरी हो गई है और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही?
भागवान! सारा माल अपनेआप वापस आ जाएगा.
अरे कभी चोरी में गया माल भी वापस आता है?
आपकी सारी नकदी और जेवर इस बैग में हैं. हम इन्हें लौटाने आए हैं.
चेहरे खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गए हैं. कोई उपाय बताइए!
लो, यह खुजली मिटाने का तेल लगाओ.
भागवान! मैंने न कहा था कि माल वापस आएगा.
© PRAN'S FEATURES, NEW DELHI-28


हिमालय पर्वत पर
चाचाजी! हम कहां जा रहे हैं?
हिमालय पर्वत पर.
अरे वह तो मुझे भी दिखाई दे रहा है. मेरा मतलब है, हम हिमालय पहाड़ पर क्यों आए हैं?
यहां कुछ घंटे हम समाधि लगाएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे. आदमी को अपनी जिन्दगी में कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए भी निकालंना चाहिए.
समाधि के लिए यह जगह उपयुक्त रहेगी. शहर की चिल्लपों से दूर, यहां हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा.
534/1983

चाचाजी बर्फ पड़ने लगी है.
चुप! जब समाधि लगाए बैठे होते हैं तो बोलते नहीं. जब मैं हरिओम कहूं, तब उठना.
घटकू-पटकू, दो चोर--
पटकू! इस बार की बैंक की चोरी में सबसे ज्यादा नोट हाथ लगे हैं. लेकिन तू मुझे यहां हिमालय पर क्यों ले आया?
शहर में हमेशा चाचा चौधरी का डर लगा रहता है. यहां उसकी छाया भी नहीं पड़ सकती.
उन दो बर्फ के टीलों पर बैठ कर हम नोट गिनेंगे.

डायमण्ड कामिक्स फन कलेक्शन में डायमण्ड कामिक्स के सभी पात्रों के जम्बो मैग्नेटिक स्टीकर

... कार्टूनिस्ट प्राण का बेहतरीन पात्र—श्रीमती जी, जो नियमित आपका

अगले माह पढ़िये—कार्टूनिस्ट प्राण का **चाचा चौधरी और सम्राट अशोक का खजाना**। साथ में चाचा

... कामिक्स में अगले माह-एक बेहतरीन कामिक—एक्शन, फैन्टेसी और हॉरर का अजीबोगरीब

अपने टेलीविजन पर देखें–



विविध भारती पर हर रविवार दोपहर सवा दो बजे डायमण्ड कामिक्स द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम जीवन में भर

चाचा चौधरी प्लेइंग कार्ड—रंग बिरंगे ताश के पत्तों में